



<b>Privacy Notice and Consent</b>	<b>निजता एवं सहमति संबंधित सूचना</b>
We want you to understand how we receive your personal information and what we do with your information for the <b>Red Cross Family and Domestic Violence Financial Assistance Program (this Program)</b> . Personal information is information about you that can identify you.	हम चाहते हैं कि आप यह समझें कि हम आपकी निजी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं और हम रेड क्रॉस संस्था और घरेलू हिंसा वित्तीय सहायता कार्यक्रम, (इस कार्यक्रम) द्वारा आपकी जानकारी का किस प्रकार उपयोग करते हैं। निजी जानकारी आपके बारे में वह जानकारी है जिससे आपकी पहचान की जा सकती है।
We are the Australian Red Cross Society and our Australian Business Number (ABN) is 50 169 561 394.	आपकी जानकारी के लिए हम ऑस्ट्रेलियाई रेड क्रॉस संस्था है और हमारे व्यवसाय की पंजीकरण संख्या ५० १६९ ५६१ ३९४ है।
<b>Why we are collecting your personal information.</b>	<b>आपकी निजी जानकारी को प्राप्त करने का कारन ।</b>
We need your personal information so that we can respond to your request for support and provide services to you. If we do not get your personal information, we might not be able to provide services to you.	हमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता है ताकि हम आपके समर्थन में आपके निवेदन का जवाब दे सकें और आपको सेवाएं प्रदान कर सकें। यदि हमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिलती है, तो हम आपको सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं रहेंगे।
We might also use your information so we can work with another organisation to support you or to ask them to support you.	हम आपकी जानकारी का उपयोग अन्य कारणों से भी कर सकते हैं ताकि हम आपका समर्थन किसी अन्य संगठन के साथ मिलकर कर सकें या अन्य संगठनों से आपकी मदद करने का निवेदन कर सकें।
Sometimes, we use it to contact you or the person you have asked us to contact on your behalf in an emergency situation.	किसी भी आपात स्थिति में हम प्राप्त हुई जानकारी का उपयोग आपसे या आपके द्वारा अपने आधार पर सुनिश्चित किये गए व्यक्ति से संपर्क करने के लिए करते हैं।
<b>Where we get your personal information from.</b>	<b>हमें आपकी निजी जानकारी कहा से प्राप्त होती है ।</b>
We will ask you to give us your personal information.	हम आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी हमें उपलब्ध करने के लिए कहेंगे।
Sometimes other people and organisations may give us your personal information, including organisations that are helping you already. This is so we can support you and so you don't have to share your information twice.	कुछ अवसरों पर अन्य जनसमूह और संगठन हमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी दे सकते हैं, जिसमें वे संगठन भी शामिल हैं जो पहले से ही आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है ताकि हम आपका समर्थन कर सकें और आपको अपनी जानकारी दोबारा साझा ना करनी पड़े।
<b>What information we collect</b>	<b>हम कौनसी जानकारी संग्रहित करते है ?</b>
Personal information is your name, date of birth, gender, contact information, visa status, bank account information, health information or other information connected with your history or relationship to Red Cross and the services we provide.	व्यक्तिगत जानकारी आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, संपर्क जानकारी, वीजा स्थिति, बैंक खाते की जानकारी, स्वास्थ्य जानकारी, आपका रेड क्रॉस से सम्बंध (पुराना एवं वर्तमान) और हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जुड़ी अन्य जानकारी है।
<b>Who we share your personal information with</b>	<b>हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी किनके साथ साझा करते हैं ।</b>
If you apply for financial assistance under this Program, we will share your personal	यदि आप इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता का आवेदन करते हैं, तो हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी



information with people and organisations that can support you or help us support you. If you are worried about this, you can speak to us.	जनसमूह और अन्य संगठनों के साथ साझा करेंगे जो आपकी सहायता कर सकते हैं या आपकी सहायता करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको इस बात की चिंता है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं।
Sometimes we need to share your personal information to keep people safe. For example, Red Cross staff and volunteers must follow the law in sharing information to keep children safe.	कुछ एक परिस्थितियों में आपको सुरक्षित रखने के लिए हमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, रेड क्रॉस के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को बच्चों की सुरक्षा हेतु निजी जानकारी का अनुकरण करते समय कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए।
<b>Do we share your information overseas?</b>	<b>क्या हम आपकी निजी जानकारी अंतराष्ट्रीय स्तर पर साझा करते हैं?</b>
We do not share your personal information with anyone overseas.	हम आपकी निजी जानकारी अंतराष्ट्रीय स्तर पर नहीं साझा करते हैं।
<b>How we store your personal information.</b>	<b>हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को कैसे संग्रहीत करते हैं।</b>
We only keep your personal information for as long as we need to or as long as we are required to by law.	हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को केवल तब तक के लिए रखते हैं जब तक हमें उसकी आवश्यकता होती है या जब तक हमें कानूनी तौर पर उससे रखने की इजाजत होती है।
<b>My Rights</b>	<b>मेरे अधिकार</b>
You have the right to ask for access to your personal information.	आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का अभिगमन करने का पूरा अधिकार है।
You have the right to ask us to fix your personal information if it is incorrect.	यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी गलत है, तो उसे सुधारने के लिए निवेदन करने का अधिकार आपके पास है।
You have the right to make a complaint to Red Cross:	आपको रेड क्रॉस में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है:
Head of Legal Australian Red Cross Society 23-47 Villiers St North Melbourne VIC 3051	कानूनी विभाग प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई रेड क्रॉस सोसायटी 23-47 विलियर्स स्ट्रीट नॉर्थ मेलबर्न विक्टोरिया 3051
Tel: 1800 RED CROSS (733 276) Fax: 61 3 9345 1800 Email: <a href="mailto:privacy@redcross.org.au">privacy@redcross.org.au</a>	फ़ोन: १८०० रेड क्रॉस (७३३ २७६) फैक्स: ६१ ३ ९३४५ १८०० ईमेल: <a href="mailto:privacy@redcross.org.au">privacy@redcross.org.au</a>
You can also make a complaint direct to the Privacy Commissioner at <a href="http://oaic.gov.au">oaic.gov.au</a>	आप <a href="http://oaic.gov.au">oaic.gov.au</a> पर सीधे गोपनीयता आयुक्त को भी शिकायत कर सकते हैं।
You can find out more by reading the Red Cross Privacy Policy <a href="http://www.redcross.org.au/privacy">www.redcross.org.au/privacy</a>	आप रेड क्रॉस गोपनीयता नीति <a href="http://www.redcross.org.au/privacy">www.redcross.org.au/privacy</a> पढ़कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं



Consent	सहमति
<p>I _____ (or my guardian/custodian/carer) have been told how Red Cross will collect, use and share my personal information. I agree and consent to my personal information being collected, used and shared so Red Cross and other people and organisations can support me and provide services to me, including under this Program.</p>	<p>मैं _____ (या मेरे अभिभावक/संरक्षक/देखभालकर्ता) को बताया गया है कि रेड क्रॉस द्वारा मेरी व्यक्तिगत जानकारी को कैसे एकत्रित, इस्तेमाल और साझा किया जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ और स्वीकारता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित, इस्तेमाल और साझा की जा रही है ताकि रेड क्रॉस, जनसमूह के लोग और अन्य संगठन मुझे समर्थन दे सकें और इस कार्यक्रम के तहत मुझे सेवाएं प्रदान कर सकें।</p>
<p>I also understand that I can change my mind and tell Red Cross not to use or share my personal information. I understand that if I withdraw my consent, Red Cross might not be able to provide support or services to me.</p>	<p>मुझे इस बात का ज्ञान है की मैं अपना विचार बदल सकता हूँ और रेड क्रॉस को अपनी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या साझा करने से मना कर सकता हूँ। मुझे ज्ञात है की मेरे ऐसा करने से रेड क्रॉस मुझे सहायता या सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं रहेगा।</p>
<p>Signature _____  Date _____</p>	<p>हस्ताक्षर _____  तारीख _____</p>
<p>If this consent form is not provided in a written language that I can understand then this form has been translated into _____  by _____ who is a person I have nominated or is an Certified interpreter in Australia. Reference No _____.</p>	<p>यदि यह सहमति प्रपत्र मेरे द्वारा समझी गई भाषा में प्रदान नहीं किया गया है तो इस प्रपत्र का _____ भाषा में अनुवाद किया गया है, _____ द्वारा, यह वो व्यक्ति जिससे मैंने नियुक्त किया है या फिर जो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में प्रमाणित अनुवादक है।  संदर्भ संख्या _____।</p>
<p><b>Verbal consent (Client is not able to sign)</b>  I, _____ (name of agency worker)  of _____ (agency name), have read out this Privacy Notice to the person named above. I am satisfied that the person named understands the notice, and agrees to their personal information being collected, used and shared in accordance with this notice.</p>	<p>मौखिक सहमति (ग्राहक हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है) मैं, _____ (संस्था कार्यकर्ता का नाम)  का _____ (संस्था का नाम), ने इस गोपनीयता सूचना को ऊपर नामित व्यक्ति को पढ़कर सुनाया है। मैं संतुष्ट हूँ कि नामित व्यक्ति इस सूचना को समझता है, और इस सूचना के अनुसार उनकी व्यक्तिगत जानकारी को एकत्रित, इस्तेमाल और साझा करने के लिए सहमत है।</p>